

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 15—अगस्त 21, 2015 (श्रावण 24, 1937)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 15—AUGUST 21, 2015 (SRAVANA 24, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 20 अप्रैल 2015

सं. आरएस.3/1/4/2015/27—कार्मिक—श्री एन. के. सिंह ने 20 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न से राज्य सभा सचिवालय में 67,000—79,000/— रु. के एच.ए.जी. वेतनमान में अपर सचिव का पदभार ग्रहण किया है।

डी. बी. सिंह, अपर सचिव

नई दिल्ली—110001, दिनांक 28 अप्रैल 2015

सं. आरएस/3/1/3/2015/28—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में निदेशक श्री एन. एस. वालिया को 28 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400—67,000/— रु. के वेतन बैंड—4 + 10,000/— रुपये के ग्रेड वेतन में और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ नियमित आधार पर संयुक्त सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 01 मई 2015

सं. आरएस/3/1/5/2015/31—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सेवा निवृत्त श्री एस. के. वर्मा को 1 मई, 2015 से एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर राज्य सभा सचिवालय में 37,400—67,000/— रु. के वेतन बैंड—4 + 10,000/— रुपये के ग्रेड वेतन में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 27 मई 2015

सं. आरएस.3/1/3/2015/43—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में निदेशक श्री राम बिहारी गुप्ता, को 27 मई, 2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400—67,000/— रु. के वेतन बैंड—4 + 10,000/— रुपये के ग्रेड वेतन में तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ नियमित आधार पर संयुक्त सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 5 जून 2015

सं. आरएस/3/1/6/2015/51—कार्मिक—डा. दिनेश बहादुर सिंह ने राज्य सभा सचिवालय में 5 जून, 2015 के पूर्वाह्न से 80,000/— रुपए (नियत) के वेतनमान में सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 8 जून 2015

सं. आरएस/3/1/4/2015/52—कार्मिक—श्री दीपक गोयल ने राज्य सभा सचिवालय में 5 जून, 2015 के अपराह्न से 67,000—79,000/— रुपए के एचएजी वेतनमान में अपर सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 25 जून 2015

सं. आरएस/42/3/2009/59—कार्मिक—दिनांक 17 जुलाई, 2009 की अधिसूचना सं. आरएस/42/3/2009/46—कार्मिक, दिनांक 25 जून 2013 की अधिसूचना सं. आरएस/42/3/2013/58—कार्मिक और दिनांक 30 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या आरएस/42/3/2009/52—कार्मिक के क्रम में राज्य सभा सचिवालय में संयुक्त निदेशक के रूप में श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवड़ा की प्रतिनियुक्ति की अवधि 26 जून, 2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 8 जुलाई 2015

सं. आरएस/3/1(1)/2015/61—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में श्री अरुण बख्शी, विधायी/समिति/नयाचार/अधिकासी अधिकारी को 11 जून, 2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600—39,100/— रुपये के वेतन बैंड—3 + 6,600/— रुपये के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 16 जुलाई 2015

सं. आरएस./42/2/2009/65—कार्मिक—महानिदेशक, आकाशवाणी, के दिनांक 13 जुलाई, 2015 के पत्र सं. पी.एफ. सं. 4/411/93—एस—VIII (पीटी.)/455 के अनुसरण में श्री प्रसन्न कुमार सूर्यदेवरा, जो आकाशवाणी में नियमित एनआरटी और वर्तमान

में राज्य सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक (मीडिया) के रूप में कार्यरत हैं, को 16 जुलाई, 2015 के अपराहन से कार्यमुक्त किया जाता है एवं उनकी सेवाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सुपुर्द कर दी गई हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 28 जुलाई 2015

सं. आरएस.3/1/3/2015/66—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निदेशक श्री जिम्बा गियाछो नेगी को 28 जुलाई, 2015 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400—67,000/— रु. के वेतन बैंड—4 + 10,000/— रुपये के ग्रेड वेतन में तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ नियमित आधार पर संयुक्त सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बंगलूर—560094, दिनांक 27 जुलाई 2015

सं. ए.12011/8/2012—अनु.1—राष्ट्रपति, श्री एम. गणेश, को अंतरिक्ष विभाग, बंगलूर में निदेशक (लागत) के रूप में दिनांक 2 जुलाई, 2015 के पूर्वाहन से नियुक्त करते हैं।

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

भारत का विधि आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2015

सं. ए—12025/2/2013—वि.आ.—राष्ट्रपति, भारत के विधि आयोग में भारतीय विधि सेवा के विधि अधिकारी सेवा संवर्ग में श्री अतुल कुमार गुप्ता, को दिनांक 28.07.2015 (पूर्वाहन) से अगले आदेशों तक वेतन बैंड—3 (रु. 15,600—39,100/—) तथा रु. 6,600/— के ग्रेड वेतन पर भारत के विधि आयोग में सहायक विधि अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2015

सं. ए 32015/8/2006—संवर्ग (प्रशा.—IV)—वर्ष 2014 के वरिष्ठता कोटे में केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग 'अनुभाग अधिकारी' की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तारीख से मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

नाम	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
श्रीमती एन. जी. अरुणी लुसी मोयोन	2014	15.06.2015

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

सं. ए 32015/8/2006—संवर्ग (प्रशा.—IV)—वर्ष 2009 के वरिष्ठता कोटे के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग 'अनुभाग अधिकारी' की चयन सूची में उनके नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तारीख से मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

नाम	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
श्री बी. के. श्रीवास्तव	2009	03.07.2015

2. अधिकारी की प्रोन्नति/नियुक्ति न्यायालयी मामले के परिणाम के अध्यक्षीन और किसी भी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी आदेश के अनुसार होगी।

- (i) कैट, नई दिल्ली में दायर किया गया श्री राजीव आर. और अन्य बनाम यूओआई ओए सं. 4135/2012, एमए सं. 3477/2012 है।
- (ii) कैट, नई दिल्ली में दायर किया गया श्री एम. आर. मीणा और अन्य बनाम यूओआई ओए सं. 4082/2012, एमए सं. 3448/2012 है।
- (iii) कैट, नई दिल्ली में दायर किया गया श्री शांति लाल बैरासी और अन्य बनाम यूओआई ओए सं. 4141/2012 है।
- (iv) कैट, नई दिल्ली में दायर किया गया श्री सौरंशु सिंहा और अन्य बनाम यूओआई और दिल्ली उच्च न्यायालय में अन्य डब्ल्यू.पी. (सी) सं. 2735/2012 है।

डी. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2015

सं. ए-19011/344/2013-स्थापना—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 29 जुलाई, 2015 के आदेश संख्या 36/02/2015—इओ(एसएम.1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, संयुक्त सचिव के पद को अपर सचिव के रूप में अपग्रेड करके श्री अनूप वधावन, आईएएस (उत्तराखंड:85) को 30 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए या मंत्रालय में अपर सचिव का पद रिक्त होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

मनीष कुमार, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2015

सं. ए -12025/01/2007—ईजी—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के तहत भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के कनिष्ठ समय मान अर्थात् 5,400/— रु. के ग्रेड वेतन के साथ 15,600—39,100/— रुपए के वेतन बैंड में नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	अधिकार का नाम (सर्व श्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	सुश्री प्रिया पारीख	29.08.2006
2.	सुश्री तान्या सिंह	30.08.2006
3.	अतुल प्रकाश	29.08.2006
4.	सुश्री अस्वथी वी एस	11.12.2006
5.	मुकेश कुमार लाल	19.12.2006
6.	सुश्री दीपना गोकुलराम	29.08.2006
7.	सिद्धार्थ बोंडाड़े	19.12.2006

2. उपरोक्त सभी 7 अधिकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालयों में कार्यरत हैं।

हरि किशोर हरित, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 3 अगस्त 2015

सं. पीएफजी(1037/2013—प्रशा. I—श्री सुरेश पाल (सीएसएस) संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जुलाई, 2015 को अपराहन सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

क्षितीश कुमार, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय
(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

मुंबई—400020, दिनांक 24 जुलाई 2015

सं. 5(84)/2015/स्था—एक/140—संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 23.04.2015 के पत्र सं. एफ.1/155(18)/2014—आर. IV द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा श्री धनसेकरन सुंदरराजन को दिनांक 2 जुलाई, 2015 (पूर्वाहन) से वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में वेतनमान—2 रु. 9,300—34,800/— एवं ग्रेड पे रु. 4,600/— में सहायक निदेशक श्रेणी—II (गैर—तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त किया जाता है। वे दिनांक 02.07.2015 (पूर्वाहन) से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

अशोक हाजरा, निदेशक (प्रशासन)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2015

सं. ए—32011/05/2015—एचआर—II—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.06.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2015—सीएस. II(ए) के अनुसरण में श्री वी. के. शर्मा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त काडर में दिनांक 01.07.2015 (पूर्वाहन) से 8,700/— के ग्रेड—पे सहित पे—बैंड-4 (रु. 37,400—67,000/—) में वर्ष 2015 की चयन सूची में नियमित प्रधान स्टॉफ अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली—110011, दिनांक 16 अप्रैल 2015

सं. 3(7)2015—पीई IV—सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अनुसरण में श्री पी. के. सरकार, इकाई प्रमुख, रिचर्डसन एंड क्रूडस (1972) लिमिटेड को रिचर्डसन एंड क्रूडस (1972) लिमिटेड, मुंबई के संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम. सुब्रमनियन, अवर सचिव

सं. 3(7)2015—पीई IV—सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अनुसरण में श्री अभिजीत रॉय, उप महाप्रबंधक (एचआर), ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता को ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम. सुब्रमनियन, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली—110011, दिनांक 28 जुलाई 2015

सं. ए. 12025/192/2014—सीएसएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. विवेक कुमार को दिनांक 28 अगस्त, 2014 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पीबी—3 के वेतनमान (15,600—39,100/— रुपए +5,400/— रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. विवेक कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, सी.जी.एच.एस., दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 जुलाई 2015

सं. ए. 12025/64/2014—सीएचएस III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर वीएमएमसी व सफदरजंग, अस्पताल, नई दिल्ली में तैनात डॉ. प्रशांत वर्मा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में त्वचा तथा रतिज रोग विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर 8 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

मुरारी लाल शर्मा, अवर सचिव

सं. ए. 12025/120/2014—सीएचएस III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रघुराम श्यामसुन्दर राव को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लोक स्वास्थ्य उप-संवर्ग में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-II (जूनियर स्केल) के पद पर दिनांक 07.10.2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

मुरारी लाल शर्मा, अवर सचिव

सं. ए. 12025/127/2014—सीएचएस III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. चिन्मोयी दास को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लोक स्वास्थ्य उप-संवर्ग में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-II (जूनियर स्केल) के पद पर दिनांक 07.10.2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

मुरारी लाल शर्मा, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 23 जुलाई 2015

सं. 3-8/2013-एनए—राष्ट्रपति, डॉ. जे. एच. पनवाल, नियमित उप तकनीकी सलाहकार [वर्तमान में, संयुक्त तकनीकी सलाहकार (तदर्थ)] को दिनांक 23 जुलाई, 2015 के पूर्वाह्न से खाद्य एवं पोषण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में पे बैंड-3 (15,600—39,100/- रुपये) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त तकनीकी सलाहकार (सामान्य केंद्रीय सेवा; समूह "क", राजपत्रित, गैर-लिपिकवर्गीय) के पद पर नियमित रूप से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

मनोज कुमार, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जून 2015

सं. ए-19011/5/2015—स्थापना—कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 15 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/8/2015—ई ओ (एम एम-1) के अनुसरण में, सुश्री दीपिका पोखरणा, आईटीएस (1997) ने संस्कृति मंत्रालय में दिनांक 24 जून, 2015 (पूर्वाह्न) को पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है।

एन. आर. मिन्ज, अवर सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2015

सं. 2015(15-1/2015—स्थापना)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.07.2015 के आदेश सं. 5/3/2015—सीएस. आई (यू) के अवलोकन में, राष्ट्रपति सहर्ष, श्री शरीक सईद, (सीएसएल सं. 8832) को, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के नियमित अनुभाग अधिकारी से तदर्थ आधार पर, ग्रेड 1 (अवर सचिव), ग्रेड पे रु. 6,600/- के साथ वेतन मान-3 (रु. 15,600—39,100/-) पर, 31.12.2015 तक की अवधि या नियमित आधार पर पद भरने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में दिनांक 27.07.2015 (अपराह्न) से नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्त के अनुसार है :—

- (क) तदर्थ पदोन्नति अनिश्चित काल तक, ग्रेड में जारी रखने का या सीएसएस के ग्रेड-I में वरिष्ठता के दावे के लिए या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ख) अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की हुई सेवा इस ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्य के लिए या अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(ग) तदर्थ नियुक्त बिना कोई कारण दिए गए किसी भी समय पर निलम्बित की जा सकती है।

ए. सेनगुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली—110003, दिनांक 30 जुलाई 2015

सं. 2015(15—12/2014—स्थापना)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कैबिनेट की नियुक्त समिति के, दिनांक 29.07.2015 के आदेश सं. 36/02/2015—EO(SM.I) के अवलोकन में, राष्ट्रपति, श्री अजय कुमार, आईएस (बिहार : 1984) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सहर्ष, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में पदोन्नति द्वारा संयुक्त सचिव के पद को पदोन्नत करते हुए अपरसचिव के पद पर, दिनांक 30.07.2015 (पूर्वाहन) की अवधि से, दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

शारिक सईद, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2015

सं. ई(ओ)III—2015/आरएन/08—श्री राहुल मिथल, भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी (जन्म तिथि : 02/06/67, डीआईटीएस : 08/03/90) का कॉन्कोर में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 08/05/2015 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

पी. सी. गजभिये, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 27 जुलाई 2015

सं. ई(ओ)III—2015/आरएन/10—श्री डी. राधाकृष्णा रेड्डी, एसएजी/आईआरएसई (जन्म तिथि: 10.05.1963 एवं डीआईटीएस: 06.03.1989) का राइट्स में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 16.12.2014 (अपराहन) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

पी. सी. गजभिये, सचिव
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2015

सं. 2006/ई(जीआर)I/10/1—राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित प्रोबेशनरों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय रेल लेखा सेवा सीएसई—2005 बैच में सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	नाम (सर्वश्री/सुश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
1.	मेघना बरगोहैन	04.01.2007
2.	अपुल जायसवाल (अनंतिम)	18.12.2006 (अब इस्तीफा दे दिया गया है)
3.	निशी पद्मा	29.08.2006
4.	विष्णु कांत तिवारी (अनंतिम)	05.01.2007
5.	संकल्प नारायण सिंह	29.08.2006
6.	गौतम जैन	29.08.2006
7.	समिधा सिंह	29.08.2006
8.	प्रवीण कटारकी	18.12.2006
9.	कदम विजय तुकाराम	29.08.2006

1	2	3
10.	ओम प्रकाश यादव	18.12.2006
11.	मोहम्मद फैसल	18.12.2006
12.	सुमीत कुमार जारंगल	18.12.2006
13.	रमेश कुमार	29.08.2006
14.	कमलालजोम	29.08.2006
15.	प्रतिमा त्रिपाठी	13.12.2010
16.	प्रतीक कुमार सिंह	13.12.2010
17.	आशीष सिंह	13.12.2010
18.	पी कम्बम	19.12.2010

परवेज़, निदेशक स्थापना (जी आर)
रेलवे बोर्ड

सं. 2006/ई(जीआर)I/32/1—राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित प्रोबेशनरों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय रेल कार्मिक सेवा सीएसई-2005 बैच में सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	नाम (सर्वश्री/सुश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	रवि कुमार	18.12.2006
2.	चितरंगना सिंह	18.12.2006
3.	सुगन्धा शर्मा	29.08.2006
4.	प्रियंका वर्धन	29.08.2006
5.	पाटिल परिजात विलास (अनंतिम)	18.12.2006
6.	शुजा महमूद	29.08.2006
7.	मेशराम अनुराग आनन्द	18.12.2006
8.	चौधरी राजेश कुमार एम. (अनंतिम)	29.08.2006
9.	कोन्जॉक ताशी खाम्पा	18.12.2006
10.	विनीत जैन (अनंतिम)	13.12.2010

परवेज़, निदेशक स्थापना (जी आर)
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2015

सं. ए-32012/1/2014-एम ए—राष्ट्रपति, नौवहन महानिदेशालय में कार्यरत श्री सुभाष बरगुजर, शीपिंग मास्टर को उप नौवहन महानिदेशक के पद पर नौवहन महानिदेशालय, मुंबई में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए 15,600—39,100/- रुपये के वेतनमान में और 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में 24.06.2015 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश कुमार, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2015

सं. ए-32013/05/2014-ई-II—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा (सड़क) समूह 'क' के निम्नलिखित अधिकारियों को वेतनमान रु. 37,400—67,000 + ग्रेड पे 8,700/- में प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित तारीखों से तथा अगले आदेश जारी तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	नाम	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री विनय कुमार बंसल	19.06.2015
2.	श्री पंकज सिंह	19.06.2015

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2015

सं. 6/81/84-प्रशा.-1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के डॉ. ऐन. पी. सिंह, वैज्ञानिक 'जी' दिनांक 31.07.2015 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

अरविंद पोखरियाल, अवर सचिव

सं. 6/284/96-प्रशा.-1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के श्री बी. आर. मिश्रा, वैज्ञानिक 'एफ' दिनांक 31.07.2015 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

अरविंद पोखरियाल, अवर सचिव

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2015

सं. 19/2015/फा. सं. ए-19011/1/2015-प्रशा.—राष्ट्रपति, श्री शशि शेखर, आई.ए.एस. (टीएन 1981) को दिनांक 05.06.2015 के पूर्वाह्न से 80,000/- रुपये (नियत) के शीर्ष वेतनमान में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. के. ओझा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2015

सं. 20/2015/फा. सं. ए-22012/3/2014—प्रशासन—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शायी गयी तिथि से 31.12.2015 तक की अवधि तक के लिए या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 15,600—39,100/- + 6,600/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-3 में पूर्ण रूप से 'तदर्थ' आधार पर, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में सीसीएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	सीएसएल सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री	उस मंत्रालय का नाम, जहां से आए हैं	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	8731	संजीत कुमार भगत	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	08.06.2015(पूर्वाह्न)
2.	8898	अमित कुमार सिंह	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	29.05.2015(पूर्वाह्न)

2. यह तदर्थ नियुक्ति पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

- I. तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने का या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने के लिए या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

- II. तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- III. अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

ए. के. कौशिक, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2015

सं. 21/2015/फा. सं. ए.-22012/2/2015-प्रशा.—राष्ट्रपति, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के श्री रामेश्वर नाथ दीक्षित की 15,600—39,100/— + 6,600/— रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-3 में पूर्ण रूप से 'तदर्थ' पदोन्नति को 31.12.2015 की अवधि तक अथवा इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

यह तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

- I. तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने का या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने के लिए या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- II. तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- III. अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

दिनांक 29 जून 2015

सं. 23/2015/फा. सं. ए.-22012/2/2015-प्रशा.—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 04.07.2014 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. सं. 5/6/2013-सीएस-I (यू) द्वारा वर्ष 2012 की चयन सूची के लिए सीएसएस की श्रेणी-I (अवर सचिव) में शामिल किए जाने पर दिनांक 04.07.2014 से नियमित आधार पर सीएसएस की श्रेणी-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं.	सीएसएल सं.	नाम सर्वश्री
1.	7326	अशोक के. कौशिक
2.	7374	कृष्ण कुमार सप्रा

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

दिनांक 7 जुलाई 2015

सं. 25/2015/फा. सं. ए.-32013/1/2015-प्रशा.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.2015 के आदेश सं. 21/02/2015-सीएस-I (डी) के अनुसरण में श्री आर. के. गुप्ता, सीएसएस अधिकारी (सीएसएल सं. 3131) को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में वेतन बैंड-4, 37,400—67,000/— रु. + 10,000/— रु. (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में उनके लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए उपाय के रूप में निदेशक के पद का एसएजी स्तर पर उन्नयन कर के दिनांक 01.07.2015 के (अपराह) से संयुक्त सचिव, (स्वस्थाने) के रूप में नियुक्त करते हैं।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2015

सं. ए.-12025/1/2008-आईआईएस (खंड-2)—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित उम्मीदवारों को प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित तारीख से ग्रेड पे 4,600/—रु. के साथ 9,300—34,800/— रु. (संशोधित) के पे बैंड-2 में भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' में वरिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	सेवा में ज्वाइन करने की तारीख	मौजूदा तैनाती का स्थान तथा पदनाम
1.	श्री विशाल दास	08.02.2013	अभियान अधिकारी, डीएवीपी, नई दिल्ली
2.	श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी	26.12.2012	एमएंडसीओ, पीआईबी, जयपुर
3.	श्री रितेश पाठक	26.12.2012	संपादक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
4.	मो. मारुफ आलम	29.01.2013	संपादक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
5.	श्री थोकचोम जोगेन्द्रजीत सिंह	29.01.2013	अभियान अधिकारी, डीएवीपी, नई दिल्ली
6.	श्री पिनाकी सरकार	07.02.2013	संवाददाता, आकाशवाणी, अगरतला
7.	श्री कोटेश्वर राव गुथा	20.05.2013	एफपीओ, डीएफपी, नालगोंडा

2. उपर्युक्त अधिकारी, भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' के वरिष्ठ ग्रेड में तैनाती की तारीख से दो (02) वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होंगे।

3. उपर्युक्त अधिकारी, वर्तमान में अपने-अपने नाम के सामने उल्लिखित कार्यालयों में भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' के वरिष्ठ ग्रेड के पद पर कार्य कर रहे हैं।

नीरज कुमार, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2015

सं. ए.-32013/2/2015-प्रशा.-1—राष्ट्रपति, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2011-सीएम (यू) दिनांक 18.06.2015 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं तथा इन्हें सीएसएस ग्रेड-I (अवर सचिव) की चयन सूची वर्ष 2003 में रखते हैं :—

क्र. सं.	सीएसएल सं.	अधिकारियों के नाम	वर्तमान पदनाम	जन्मतिथि	पूर्व चयन सूची वर्ष
1.	4636-ए	श्रीमती गरिमा अरविद सिंह	उप सचिव	27.05.1971	2005
2.	4678-ए	सुश्री एस. रूकमाणी	उप सचिव	09.11.1969	2005
3.	4763-ए	श्री अभिजीत बक्शी	उप सचिव	30.01.1972	2005
4.	6098	श्री सुधीर चन्द्र जाना	उप सचिव	14.04.1964	2005

2. उपरोक्त अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा डीपीसी तथा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.06.2015 के आधार पर चयन सूची 2003 में शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 20th April 2015

No. RS. 3/1/4/2015/27-Perl.—Shri N. K. Singh has assumed the charge of the post of Additional Secretary in the HAG Scale of Rs. 67,000—79,000/- in Rajya Sabha Secretariat with effect from the forenoon of 20th April, 2015.

D. B. SINGH, Additional Secretary

New Delhi-110001, the 28th April 2015

No. RS. 3/1/3/2015/28-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri N. S. Walia, Director in the Rajya Sabha Secretariat, to the Grade of Joint Secretary in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 28th April, 2015 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 1st May 2015

No. RS. 3/1/5/2015/31-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri S. K. Verma, CSS (Retd.) as Joint Secretary & Financial Adviser in the Rajya Sabha Secretariat in the Pay Scale of PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of one year on contractual basis w.e.f. 1st May, 2015.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 27th May 2015

No. RS. 3/1/3/2015/43-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri R. B. Gupta, Director in the Rajya Sabha Secretariat, to the Grade of Joint Secretary in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 27th May, 2015 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 5th June 2015

No. RS. 3/1/6/2015/51-Perl.—Dr. Dinesh Bahadur Singh has assumed the charge of the post of Secretary in the Scale of Rs. 80,000/- (fixed) in Rajya Sabha Secretariat with effect from the forenoon of 5th June, 2015.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 8th June 2015

No. RS. 3/1/4/2015/52-Perl.—Shri Deepak Goyal has assumed the charge of the post of Additional Secretary in the HAG scale of Rs. 67,000—79,000/- in Rajya Sabha Secretariat with effect from the afternoon of 5th June, 2015.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 25th June 2015

No. RS./42/3/2009/59-Perl.—In continuation of Notification Nos. RS/42/3/2009/46-Perl. dated 17.07.2009, RS/42/3/2013/58-Perl. dated 25.06.2013 and RS/42/3/2009/52-Perl. dated 30.06.2014, the deputation of Shri Prasanna Kumar Suryadevara as Joint Director in the Rajya Sabha Secretariat has been extended for a further period of one year with effect from forenoon of 26th June, 2015 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 8th July 2015

No. RS./3/1/1/2015/61-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Arun Bakshi, Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Assistant Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 11th June, 2015 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 16th July 2015

No. RS. 42/3/2009/65-Perl.—Pursuant to the letter No. PF. No. 4/411/93-S-VIII (Pt.)/455 dated 13th July, 2015 of the Director General, All India Radio, Shri Prasanna Kumar Suryadevara, a regular NRT in All India Radio and presently working on deputation basis as Joint Director (Media) in the Rajya Sabha Secretariat, stands relieved of his duties in the Secretariat w.e.f. the afternoon of 16th July, 2015 and his services placed at the disposal of Government of NCT of Delhi.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 28th July 2015

No. RS.3/1/3/2015/66-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Jimba Giachho Negi, Director in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Joint Secretary in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 28th July, 2015 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Joint Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 27th July 2015

No. A. 12011/8/2012-Sec. I—The President is pleased to appoint Shri M. Ganesh, as Director (Cost) in the Department of Space, Bangalore with effect from the forenoon of 2nd July 2015.

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

LAW COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 29th July 2015

No. A-12025/2/2013-LC—The President is pleased to appoint Shri Atul Kumar Gupta to the post of Assistant Law Officer in the Law Officer Service Cadre of Indian Legal Service, in the Law Commission of India in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 28.07.2015 (FN) and until further order.

KULDEEP KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 31st July 2015

CORRIGENDUM

No. 14046/33/2014. UTS-I—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 22.07.2015, the name of Shri Jagjit Singh Deswal, may be read as Shri Jagjeet Singh Deswal. Rest of the contents of the said Notification shall remain unchanged.

This issues with the prior approval of Competent Authority.

A. V. DHARMA REDDY, Director (Services)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 27th July 2015

No. A-32015/8/2006-Cadre(Ad.IV)—Consequent upon inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of CSS for the year 2014 against Seniority Quota, the President is pleased to appoint the following officer of CSS Cadre of the Ministry of Personnel, PG & Pensions as Section Officer in the Ministry w.e.f. the date mentioned against her name :—

Name	Select List Year	Date of appointment
Smt. Ng. Aruni Lucy Moyon	2014	15.06.2015

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

No. A-32015/8/2006-Cadre(Ad.IV)—Consequent upon inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of CSS for the year 2009 against Seniority Quota, the President is pleased to appoint the following officer of CSS Cadre of the Ministry of Personnel, PG & Pensions as Section Officer in the Ministry w.e.f. the date mentioned against his name :—

Name	Select List Year	Date of appointment
Shri B. K. Srivastava	2009	03.07.2015

2. The promotion/appointment of the officer would be subject to the outcome of Court cases and also as per any order by any competent Court in any of the connected matters :—

- i) OA No. 4135/2012, MA No. 3477/2012 filed by Sh. Rajeev R & Ors Vs UOI in CAT, New Delhi.
- ii) OA No. 4082/2012 & MA No. 3448/2012 filed by Sh. M. R. Meena & Ors Vs UOI in CAT, New Delhi.
- iii) OA No. 4141/2012 filed by Sh. Shanti Lal Bourasi & Ors Vs UOI in CAT, New Delhi.
- iv) WP (C) No. 2735/2013 filed by Sh. Sauranshu Sinha & Ors Vs UOI and Ors in the High Court of Delhi.

D. K. SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 30th July 2015

No. A-19011/344/2013-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's order No. 36/02/2015-EO(SM.I) dated 29th July, 2015, the President is pleased to appoint Shri Anup Wadhawan, IAS (UK:85) as Additional Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 30th July, 2015 by upgrading the post of Joint Secretary as Additional Secretary for a period of two years or till a vacancy of Additional Secretary arises in the Ministry or till further orders, whichever is earlier.

MANISH KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 28th July 2015

No. A-12025/01/2007-EG—The President is pleased to appoint the following Officers to the Junior Time Scale of Indian Audit and Accounts Service viz. Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 with effect from the dates mentioned against their names :—

S.No.	Name of the Officer	Date of joining
	(S/Shri)	
1.	Ms. Priya Parikh	29.08.2006
2.	Ms. Tanya Singh	30.08.2006
3.	Atul Prakash	29.08.2006
4.	Ms. Aswathy V S	11.12.2006
5.	Mukesh Kumar Lal	19.12.2006
6.	Ms. Deepna Gokulram	29.08.2006
7.	Siddhartha Bondade	19.12.2006

2. All the above 7 Officers are working in the Offices under the Comptroller and Auditor General of India.

HARI KISHORE HARIT, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 3rd August 2015

No. PFG(1037)/2013-Ad.I—On attaining the age of superannuation, Shri Suresh Pal (CSS), Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs, retired from the Government Service in the afternoon of 31st July, 2015.

KSHITISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER)

Mumbai-400020, the 24th July 2015

No. 5(84)/2015/Est-I/140—On the basis of the recommendations made by the Union Public Service Commission vide letter No. F.1/155(18)/2014-R.IV dated 23.04.2015, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri Dhanasekaran Sundararajan to the post of Assistant Director Grade-II (Non-Technical), (Group 'B' Gazetted) in the PB-2 of Rs. 9300—34800/- plus Grade Pay Rs. 4600/-, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai with effect from 2nd July, 2015 (FN) by direct recruitment(.). He will be on probation from 02.07.2015 (FN) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the Competent Authority(.).

ASHOK HAZRA, Dir. (Admn.)

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 7th July 2015

No. A-32011/05/2015-HR-II—The President is pleased to appoint Sh. V. K. Sharma, as regular Principal Staff Officer in Select List of the Year 2015 in Pay Band-4 (Rs. 37400—67000/-) with Grade Pay of Rs. 8700/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 01/07/2015 (F/N) in pursuance of the DoPT's OM No. 1/1/2015-CS.II(A) dated 01.06.2015.

SANJAY SRIVASTAVA, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY AND PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi-110011, the 16th April 2015

No. 3(7)2015-P.E.IV—In terms of Section 3 of Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants), Act, 1971, Shri P. K. Sarkar, Unit Chief, Richardson & Cruddas (1972) Limited has been appointed as the Estate Officer of the Richardson & Cruddas (1972) Limited, Mumbai.

M. SUBRAMANIYAN, Under Secy.

No. 3(7)2015-P.E.IV—In terms of Section 3 of Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants), Act, 1971, Shri Abhijit Roy, Deputy General Manager (HR), Bridge & Roof Company (India) Limited, Kolkata has been appointed as the Estate Officer of the Bridge & Roof Company (India) Limited, Kolkata.

M. SUBRAMANIYAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 28th July 2015

No. A.12025/192/2014-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vivek Kumar in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15600—39100/-) + Grade Pay Rs. 5400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 21.08.2014 until further orders. Dr. Vivek Kumar is posted as Medical Officer under CGHS, Delhi. He will be on probation for a period of two years from the date of his appointment.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

New Delhi-110011, the 30th July 2015

No. A.12025/64/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Prashant Verma to the post of Assistant Professor in the Specialty of Skin & V.D., posted at the VMMC & Safdarjung Hospital, New Delhi in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of July 8, 2014 and until further orders.

MURARI LAL SHARMA, Under Secy.

No. A.12025/120/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Raghuram Shyamsunder Rao to the post of Public Health Specialist Grade-II (Junior Scale) in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 07.10.2014 and until further orders.

MURARI LAL SHARMA, Under Secy.

No. A.12025/127/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Chinmoyee Das to the post of Public Health specialist Grade-II (Junior Scale) in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 07.10.2014 and until further orders.

MURARI LAL SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi-1, the 23rd July 2015

No. 3-8/2013-NA—The President is pleased to appoint Dr. J. H. Panwal, a regular Deputy Technical Adviser [presently, Joint Technical Adviser (ad hoc)] to the grade of Joint Technical Adviser (General Central Service; Group 'A'; Gazetted; Non-Ministerial) in the pay structure of Pay Band-3 (₹ 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of ₹ 7,600/- on regular basis in the Food & Nutrition Board (Ministry of Women & Child Development) with effect from the forenoon of the 23rd July, 2015.

MANOJ KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi-110001, the 25th June 2015

No. A-19011/5/2015-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer) Office Memorandum No. 4/8/2015-EO (MM-I) dated 15th April, 2015 Ms. Deepika Pokharna, ITS (1997) has

assumed the charge of Director in the Ministry of Culture in the forenoon of 24th June, 2015 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

N. R. MINZ, Under Secy.

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

New Delhi-110003, the 28th July 2015

No./2015/ (15-1/2015-Estt.)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2015-CS.I(U) dated 24.07.2015, the President is pleased to appoint Shri Shariq Saeed (CSL No. 8832), a regular Section Officer of Central Secretariat Services (CSS) to Grade I (Under Secretary) on ad hoc basis for a period upto 31.12.2015 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier, in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6600/-, in the National Commission for Minorities (NCM) w.e.f. 27.07.2015 (A/N).

2. The above ad hoc appointment is subject to the following conditions :—

- a. The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS.
- b. The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- c. Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

A. SENGUPTA, Under Secy.

New Delhi-110003, the 30th July 2015

No. 15-12/2014-Estt./2015 (15-12/2014-Estt.)—In pursuance of Appointment Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training Order No. 36/02/2015-EO(SM.1) dated 29.07.2015, the President is pleased to appoint Shri Ajoy Kumar, IAS (BH : 1984), Joint Secretary, National Commission for Minorities under the Ministry of Minority Affairs as Additional Secretary, National Commission for Minorities under the Ministry of Minority Affairs w.e.f. 30.07.2015 (F/N) by upgrading the post of Joint Secretary as Additional Secretary for a period of two years or till further orders, whichever is earlier.

SHARIQ SAEED, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 22nd July 2015

No. E(O)III-2015/RN/08—Consequent upon his permanent absorption in CONCOR, Shri Rahul Mithal, Senior Administrative Grade Officer of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers (DOB: 02.06.67, DITS: 08.03.90) has resigned from Railway Service with effect from 08.05.2015.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

The 27th July 2015

No. E(O)III-2015/RN/10—Consequent upon his permanent absorption in RITES Shri D. Radhakrishna Reddy, SAG/IRSE, (DOB: 10.05.1963 & DITS: 06.03.1989) has resigned from Railway Service with effect from 16.12.2014 (AN).

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

New Delhi, the 20th July 2015

No. 2006/E(GR)/I/10/1—The President is pleased to appoint the following Probationers in the Indian Railway Accounts Service CSE-2005 Batch with effect from the date noted against each :—

S.No.	Name	Date of joining
	(S/Sh./Ms.)	
1.	Meghna Buragohain	04.01.2007
2.	Apul Jayaswal (Provisional)	18.12.2006 (Since resigned)
3.	Nishi Padma	29.08.2006
4.	Vishnu Kant Tiwari (Provisional)	05.01.2007
5.	Sankalp Narayan Singh	29.08.2006
6.	Gautam Jain	29.08.2006
7.	Samidha Singh	29.08.2006
8.	Praveen Kataraki	18.12.2006
9.	Kadam Vijay Tukaram	29.08.2006
10.	Om Prakash Yadav	18.12.2006
11.	Md. Faisal	18.12.2006
12.	Sumeet Kumar Jarangal	18.12.2006
13.	Ramesh Kumar	29.08.2006
14.	Kamlalzom	29.08.2006
15.	Pratima Tripathi	13.12.2010
16.	Prateek Kumar Singh	13.12.2010
17.	Ashish Singh	13.12.2010
18.	P Kambam	19.12.2010

PARVEZ, Dir Estt. (GR)
(Railway Board)

No. 2006/E(GR)/I/32/1—The President is pleased to appoint the following Probationers in the Indian Railway Personnel Service CSE-2005 Batch with effect from the date noted against each :—

S.No.	Name	Date of joining
	(S/Sh./Ms.)	
1.	Ravi Kumar	18.12.2006
2.	Chitrangna Singh	18.12.2006
3.	Sugandha Sharma	29.08.2006
4.	Priyanka Vardhan	29.08.2006
5.	Patil Parijat Vilas (Provisional)	18.12.2006
6.	Shuja Mahamood	29.08.2006
7.	Meshram Anurag Anand	18.12.2006
8.	Chaudhari Rajesh Kumar M. (Provisional)	29.08.2006
9.	Konjok Tashi Khampa	18.12.2006
10.	Vineet Jain (Provisional)	13.12.2010

PARVEZ, Dir Estt. (GR)
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 28th July 2015

No. A-32012/1/2014-MA—The President is pleased to appoint Shri Subhash Barguzer, Shipping Master, DGS as Deputy Director General of Shipping in the Pay Scale of Rs. 15600—39100/- + GP 7600/- in the Directorate General of Shipping, Mumbai, on deputation basis for a period of five years with effect from 24.06.2015 (FN) until further orders.

SATISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 16th July 2015

No. A-32013/05/2014-E.II—The President is pleased to appoint following officers of the Central Engineering Service (Roads) Group 'A' of this Ministry as Superintending Engineer (C) in the Pay Scale of PB-4, Rs. 37400—67000/- + Grade Pay of Rs. 8700/- in the Ministry of Road Transport & Highways with effect from the date mentioned against their names and until further orders :—

S.No.	Name of the officer	Date of promotion
1.	Sh. Vinay Kr. Bansal	19.06.2015
2.	Sh. Pankaj Singh	19.06.2015

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 31st July 2015

No. 6/81/84-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Dr. N. P. Singh, Scientist 'G' in this Ministry retired from Government Service with effect from 31st July, 2015 (AN).

ARVIND POKHRIYAL, Under Secy.

No. 6/284/96-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri B. R. Mishra, Scientist 'F' in this Ministry retired from Government Service with effect from 31st July, 2015 (AN).

ARVIND POKHRIYAL, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 5th June 2015

No. 19/2015 (F. No. A.19011/1/2015-Admn.)—The President is pleased to appoint Shri Shashi Shekhar, IAS (TN:1981) as Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation in the Apex Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with effect from the forenoon of 5.6.2015.

R. K. OJHA, Under Secy.

New Delhi, the 10th June 2015

No. 20/2015 (F.No. A.22012/3/2014-Admn.)—The President is pleased to appoint the following Section Officers to Grade I (Under Secretary) of CSS purely on 'ad hoc' basis in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) in the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation with effect from the date mentioned against them for a period upto 31.12.2015, or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

S.No.	CSL No.	Name of the officer	Ministry from which joined	Date of joining
		S/Shri		
1.	8731	Sanjeet Kumar Bhagat	M/o Water Resources, RD & GR	08.06.2015 (FN)
2.	8898	Amit Kumar Singh	M/o Environment, Forest & CC	29.05.2015 (FN)

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade.

A. K. KAUSHIK, Under Secy.

New Delhi, the 18th June 2015

No. 21/2015 (F.No. A.22012/2/2015-Admn.)—The President is pleased to extend the ad hoc promotion as Under Secretary in respect of Shri Rameshwar Nath Dixit borne on the CSS Cadre of the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6600/- (Grade Pay) for a period upto 31.12.2015 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

The 29th June 2015

No. 23/2015 (F.No. A.22012/2/2015-Admn.)—Consequent upon their inclusion in Grade I (Under Secretary) of CSS for the Select List year 2012 vide DoPT's O.M. No. 5/6/2013-CS.I(U) dated 4.7.2014, the President is pleased to appoint the following officers to Grade I (Under Secretary) of CSS on regular basis with effect from 4.7.2014 :—

S.No.	CSL No.	Name
		S/Shri
1.	7326	Ashok K. Kaushik
2.	7374	Krishan Kumar Sapra

NARENDRA SINGH, Under Secy.

The 7th July 2015

No. 25/2015 (F. No. A.32013/1/2015-Admn.)—In pursuance to DoPT's Order No. 21/2/2015-CS.I(D) dated 1.7.2015, the President is pleased to appoint Shri R. K. Gupta, CSS Officer (CSL No. 3131) as Joint Secretary (in-situ) in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- (Grade Pay) in the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation by upgrading the post of Director to SAG Level as a measure personal to him with effect from 1.7.2015 (AN).

NARENDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 6th July 2015

No. A-12025/1/2008-IIS(Pt.2)—On the basis of recommendations of the Union Public Service Commission, the competent authority in the Ministry of Information and Broadcasting is pleased to appoint the following candidates in the

Senior Grade of Indian Information Service Group 'B' in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- (Revised) with Grade Pay of Rs. 4600/- with effect from the date mentioned in the column against their names :—

S.No.	Name of the officer	Date of joining in the service	Present place of Posting and designation
1.	Sh. Bishal Das	08.02.2013	Campaign Officer, DAVP, New Delhi
2.	Sh. Jitendra Kumar Dwivedi	26.12.2012	M&CO, PIB, Jaipur
3.	Sh. Ritesh Pathak	26.12.2012	Editor, DPD, New Delhi
4.	Md. Maruf Alam	29.01.2013	Editor, DPD, New Delhi
5.	Sh. Thokchom Jogendrajit Singh	29.01.2013	Campaign Officer, DAVP, New Delhi
6.	Sh. Pinaki Sarkar	07.02.2013	Correspondent, AIR, Agartala
7.	Sh. Koteswar Rao Gutha	20.05.2013	FPO, DFP, Nalgonda

2. The above officials will be on probation for a period of two (02) years with effect from the date of appointment in the Senior Grade of Indian Information Service Group 'B'.

3. The above officials are presently working against the post of Senior Grade of Indian Information Service Group 'B' in the respective offices mentioned against their names.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 30th July 2015

No. A-32013/2/2015-Admn.I.—In pursuance of DoP&T's OM No. 5/6/2011-CS.I (U), dated 18.06.2015—The President is pleased to appoint and to place the following officers in the Select List year 2003 of the Gr-I (Under Secretary) of CSS :—

Sl. No.	CSL No.	Name of Officers	President Designation	Date of Birth	Earlier Select List year
01.	4636-A	Mrs. Garima Arvind Singh	Deputy Secretary	27.05.1971	2005
02.	4678-A	Ms. S. Rukmini	Deputy Secretary	09.11.1969	2005
03.	4763-A	Shri Abhijit Bakshi	Deputy Secretary	30.01.1972	2005
04.	6098	Shri Sudhir Chandra Jana	Deputy Secretary	14.04.1964	2005

3. The above officers are eligible to be added in the Select List 2003 on the basis of Review DPC held by UPSC and subsequent DoP&T aforesaid OM dated 18.06.2015.

S. K. GUPTA, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in